



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 पौष 1932 (श0)
(सं0 पटना 4) पटना, वृहस्पतिवार 13 जनवरी 2011

सं० 3ए-3(या0भ0)-02 / 10-293

वित्त विभाग

प्रेषक,

मदन मोहन प्रसाद,
विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 12 जनवरी 2011

विषय:- राज्य के सरकारी सेवकों को देश के अन्दर छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा प्रदान के संबंध में निर्गत परिपत्र में संशोधन ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक राज्य के सरकारी सेवकों को केन्द्रीय छठे वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में पुनरीक्षित वेतनमान एवं भत्तों पर अनुशंसा देने के निमित्त गठित वेतन समिति की अनुशंसा एवं उस पर त्रिसदस्यीय समिति के परामर्श के आलोक में राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को देश के अन्दर छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा प्रदान संबंधी वित्त विभागीय परिपत्र सं०-2894, दिनांक 17 मार्च 2010 निर्गत किया गया है ।

उपरोक्त परिपत्र सं०-2894, दिनांक 17 मार्च 2010 की कंडिका-3 में निम्नांकित अतिरिक्त प्रावधान किये जाते हैं:-

(क) भारत अन्तर्गत वैसे पर्यटन स्थल जो रेल मार्ग से जुड़ा न हो जैसे-अंडमान निकोबार जहाँ जाने के लिए रेल मार्ग एवं पानी का जहाज/स्टीमर/हवाई जहाज दोनों की यात्रा करनी पड़ती है, वैसे स्थिति में रेल यात्रा के लिए वित्त विभागीय परिपत्र सं०-2894, दिनांक 17 मार्च 2010 की कंडिका-3 के अनुसार दावा प्रतिपूर्ति तथा पानी के जहाज से तय किये जाने वाले दूरी के लिए पानी के जहाज के द्वितीय श्रेणी का वास्तविक किराया अनुमान्य होगा । पानी की जहाज से तय की जाने वाली दूरी की यात्रा हवाई जहाज से किये जाने पर भी पानी के जहाज को द्वितीय श्रेणी का वास्तविक किराया ही अनुमान्य होगा ।

(ख) भारत अन्तर्गत वैसे पर्यटन स्थल जहाँ पहुँचने के लिए रेल एवं सड़क दोनों से यात्रा करना पड़ता है, वैसी स्थिति में रेल द्वारा तय की गई दूरी के लिए परिपत्र सं०-2894, दिनांक 17 मार्च 2010 की कड़िका-3 के अनुसार दावा प्रतिपूर्ति की जा सकेगी। शेष दूरी सार्वजनिक परिवहन के किसी भी माध्यम द्वारा की जा सकेगी परन्तु कुल किराया पात्रता श्रेणी द्वारा उतनी दूरी के लिए अनुमान्य रेल भाड़ा से अधिक नहीं होगा। अन्य राज्यों के परिवहन/पर्यटन निगमों की वाहन से शेष दूरी की यात्रा किये जाने पर उसका वास्तविक भाड़ा अनुमान्य होगा।

(ग) वित्त विभागीय परिपत्र सं०-2894, दिनांक 17 मार्च 2010 की अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

(घ) यह स्वीकृत्यादेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

विश्वासभाजन,
मदन मोहन प्रसाद,
विशेष सचिव, वित्त विभाग।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 4-571+500-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>